

No. of Printed Pages : 4

BPCC-103

**B. A. (HONOURS) PSYCHOLOGY
(BAPCH)**

Term-End Examination

December, 2020

**BPCC-103 : PSYCHOLOGY OF INDIVIDUAL
DIFFERENCES**

Time : 2 Hours

Maximum Marks : 50

Note : *Attempt any **five** questions selecting at least **two** questions from each Section. Answer each question in about **300** words. All questions carry equal marks.*

Section—I

1. Define personality. Discuss the five factor theory of personality. 3+7
2. Explain the cognitive approaches to intelligence. 10
3. Differentiate between individual and group tests. 10

4. Define aptitude. Point out the advantages and limitations of aptitude tests. 5+5

Section—II

5. Discuss self-identity and self-concept in Western Psychology. 10
6. Discuss the meaning and nature of Indian Psychology. 10
7. What is self-enhancement ? Describe the techniques of self-enhancement. 3+7
8. Define creativity. Discuss the assessment of creativity. 3+7

BPC-103**बी. ए. (ऑनर्स) मनोविज्ञान****(बी. ए. पी. सी. एच.)****सत्रांत परीक्षा****दिसम्बर, 2020****बी.पी.सी.सी.-103 : व्यक्तिगत भिन्नताओं का मनोविज्ञान****समय : 2 घण्टे****अधिकतम अंक : 50**

नोट : प्रत्येक भाग से कम-से-कम दो प्रश्न चुनते हुए किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

भाग—I

1. व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। पाँच कारक सिद्धान्त के बारे में चर्चा कीजिए। 3+7
2. बुद्धि के संज्ञानात्मक उपागमों की व्याख्या कीजिए। 10
3. वैयक्तिक परीक्षण और समूह परीक्षण के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए। 10

4. अभिक्षमता को परिभाषित कीजिए। अभिक्षमता परीक्षण के फायदे और कमियों का वर्णन कीजिए। 5+5

भाग—II

5. पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार आत्म-पहचान एवं आत्म-सम्प्रत्यय की चर्चा कीजिए। 10
6. भारतीय मनोविज्ञान का अर्थ और प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए। 10
7. आत्म-वृद्धि क्या है? स्वयं की वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों के बारे में वर्णन कीजिए। 3+7
8. सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। सृजनात्मकता के आकलन के बारे में चर्चा कीजिए। 3+7